

RSWM/SECTT/2023
July 26, 2023

BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001. Scrip Code: 500350	National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block - G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI - 400 051. Scrip Code: RSWM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub: Submission of Newspaper Notice regarding proposed transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of Notice published in the English Newspaper i.e. "Business Standard" all editions and in Hindi Newspapers i.e. "Business Remedies" & "Nafa Nuksan" Jaipur editions on 26th July, 2023 in respect of proposed transfer of Equity Shares of the Company for which dividend has not been claimed for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, in accordance with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended.

The above filing is in pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **RSWM LIMITED**

SURENDER GUPTA
VICE PRESIDENT – LEGAL & COMPANY SECRETARY
FCS - 2615
rswm.investor@lnjbhilwara.com

Encl.: As above.

(Formerly Rajasthan Spinning & Weaving Mills Limited)

Corporate Office :
Bhilwara Towers, A-12, Sector-1
Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India
Tel: +91-120-4390300 (EPABX)
Fax: +91-120-4277841
Website: www.rswm.in
GSTIN: 09AAACR9700M1Z1

Regd. Office :
Kharigram, P. B. No. 28, Post Office Gulabpura - 311 021
Distt. Bhilwara, (Rajasthan), India
Tel. : +91-1483-223144 to 223150, 223478
Fax : +91-1483-223361, 223479
Website: www.lnjbhilwara.com
GSTIN: 08AAACR9700M1Z3

Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216

emami limited
 CIN : L63993WB1983PLC06030
 Registered Office: Emami Tower, 687, Anandapur E M Bypass, Kolkata – 700107, West Bengal, India
 Tel. No.: +91-33-66136264, Website: www.emamiltd.in, Email: investors@emamigroup.com
 Members are hereby informed that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, August 23, 2023 at 11:30 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
 In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Integrated Annual Report 2022-23 will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website (www.emamiltd.in) and on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company's Registrar and Transfer Agent, Maheshwari Datamatics Private Limited ("MDPL"). Physical copies of the Notice of AGM and Integrated Annual Report 2022-23 shall be sent to those shareholders who request for the same by writing to the Company/MDPL.
 In terms of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration Rules), 2014, the Resolutions for consideration at the 40th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e., facility to cast vote prior to AGM) and also e-voting during the AGM, for which the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") have been engaged by the Company.
 Members holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of AGM, Integrated Annual Report 2022-23 and login credentials for e-voting/joining AGM by sending following documents through email to MDPL at mdpldc@yahoo.com or to the company at investors@emamigroup.com. 1) a signed request letter mentioning Name, Folio No., email address, mobile No. and complete postal address; 2) self-attested scanned copy of the PAN card; & 3) self-attested scanned copy of any document of address proof (such as Aadhar Card, Driving Licence, Voter ID card, Passport).
Book closure:
 Pursuant to section 91 of the Act and Regulations 42 & 47 of the Listing Regulations, it is hereby informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, August 16, 2023 to Wednesday, August 23, 2023 (both days inclusive).
For Emami Limited
Sandeep Kumar Sultania
 Company Secretary & VP – Sales Commercial
 Date: 24.07.2023
 Place: Kolkata

RSWM LIMITED
 CIN:L17115RJ1960PLC008216
 Registered Office: Kharigrām, P.O. Gulabpura-311021, Distt. Bhilwara, Rajasthan; Phone: +91-1483-223144 to 223150, 223478 Fax: +91-1483-223361, 223479
Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P) Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841
 E-mail: rswm.investor@injbhilwara.com; Website: www.rswm.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2015-16 AND THE UNDERLYING SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID/ UNCLAIMED FOR 7 (SEVEN) CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2015-16 TO THE IEPF (INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND)

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended time to time. The IEPF Rules 2016, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner.

In accordance with the Rules, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid/claimed for the last 7 (Seven) years from financial year 2015-16, have to be transferred to the Demat account of IEPF Authority.

The Company has already sent Individual notices by Speed Post at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed for last 7 (seven) years, advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID, etc. on its websites i.e. www.rswm.in under Investors section.

Accordingly, the concerned shareholders are requested to reply and claim their entire unclaimed dividend before due date. The unclaimed dividend for the financial year 2015-16 will be due for transfer on **2nd November, 2023**. In case the Company/ Registrar and Transfer agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company shall transfer such shares to the Demat account of IEPF Authority with a view to comply with the Rules, 2016.

We request you to claim your Dividend before the due date of transfer to avoid transfer of Shares in to IEPF.

The concerned Shareholders are requested to put their claim for the unclaimed dividend by sending a formal letter duly signed by them alongwith following documents:-

1. Original cancelled cheque leaf bearing Bank A/c No., Bank Name, IFSC code and the Name of Shareholder printed over it.
2. Self-attested copy of PAN.
3. Self-attested copy of Aadhaar/ Passport/ Utility Bill (not older than 3 month old) as address proof.

No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority.

Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares if any, can be claimed back from IEPF authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact Registrar and Transfer Agent;

MCS Share Transfer Agent Ltd., (Unit: RSWM Ltd.)
 F - 65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020
 Phone No. 011-41406149-52, Fax No. 011-41709881
 Email Id: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

REQUEST FOR UPDATION OF KYC, PAN, NOMINATION AND BANK ACCOUNT AND OTHER DETAILS:

We hereby further request to all the shareholders to please update their KYC and PAN, e-mail ID, present Address, Bank account detail, Nomination details including option to 'Opt-out' if any:

- a) With their respective Depository Participants, if shares are held by them in Demat mode or
- b) With Company's RTA, by submitting Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (as applicable) if shares are held in Physical mode, in case they have not updated the said details / information. The said forms available on the websites i.e. www.rswm.in under Investors section.

For **RSWM LIMITED**
 Sd/-
Surender Gupta
 Date : 25th July, 2023 V P Legal & Company Secretary
 Place : Noida (U.P.) FCS : 2615

The ALL-NEW Business Standard App
 Making Devices Smart, Insight Out.

The Business Standard Morning show
 New episodes at 8am, Monday to Friday

Daily market insights
 Get detailed analysis and updates on the share market

Go offline
 Online, Offline, Anytime. Stay connected, always

Dark mode
 Introducing dark mode for easy reading

Read to me
 Listen on the move

Quick reads
 For when you don't have time

Download now from bit.ly/B.S.app

Business Standard
 Insight Out

NACL Industries Limited
 CIN: L24219TG1986PLC016607
 Registered Office: Plot No.12-A, "C" Block, Lakshmi Towers, No.8-2-248/1/7/78, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad-500082, Telangana State INDIA
 Ph: 040-33185100 | e-mail : investors@naclind.com | website : www.naclind.com

NOTICE
Transfer of Equity shares of the Company to Investors Education and Protection Fund ('IEPF')

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the IEPF Rules"), the **Final Dividend declared for the Financial Year 2015-16**, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years, will be transferred to the IEPF on or before **November 24, 2023**. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per procedure set out in the rules.

In compliance with the IEPF Rules, the Company has communicated from time to time to the concerned shareholders individually whose shares are liable to be transferred to the IEPF under the said IEPF Rules for taking appropriate action. The Company has uploaded full details of such shareholder on its website at www.naclind.com.

Members are requested to claim the Final Dividend declared for the Financial Year 2015-16 and subsequent years dividend before the same is transferred to the IEPF.

In connection with transfer of equity shares to IEPF, please note the following:

- a) **Members holding shares in physical form :** The Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer in favor of the IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of members will stand automatically cancelled and deemed non-negotiable;
- b) **Members holding Shares in Dematerialised form :** The Company shall inform the depository by way of corporate action to transfer shares in the DEMAT account of the IEPF Authority.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholder on or before the October 20, 2023, the Company shall in order to comply with the IEPF Rules, transfer the unpaid or unclaimed dividend to the IEPF Authority on or before the due date i.e November 24, 2023.

Further the corresponding shares on which dividend is unpaid or unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF.

Members are eligible to claim both the unpaid or unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority by submitting an online application in the FORM IEPF 5 available on the website at www.iepf.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the Nodal Officer of the Company at its registered office along with requisite documents enumerated in the Form IEPF 5 and thereafter the Nodal Officer of the Company shall file online e-verification report with IEPF Authority within stipulated timeline.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact to the Company's Share Transfer Agent at M/s. XL Softech Systems Ltd., 3, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034. Tel.040 23545913, 23545914, 23545915, Email : xfield@gmail.com

for **NACL Industries Limited**
 Sd/-
Satish Kumar Subudhi
 Vice President – Legal & Company Secretary
 FCS 9085
 Place : Hyderabad
 Date : 25th July, 2023

HDFC ERGO General Insurance Company Limited
 CIN: U66030MH2007PLC177117
 IRDAI Registration No.: 146
 Date of Registration with the IRDAI: July 09, 2010

Financial Results (₹ in '000)

Sr No.	Particulars	Three months ended		Year ended
		June 30, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		Audited	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations (Note 1)	35,274,535	31,754,428	168,731,374
2	Net Profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	2,659,788	1,922,346	8,684,454
3	Net Profit / (loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Item)	2,659,788	1,922,346	8,684,454
4	Net Profit / (loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Item)	2,004,979	1,441,531	6,526,595
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (Note 2)	NA	NA	NA
6	Paid up Equity Share Capital	7,146,132	7,127,800	7,127,800
7	Reserves (exclude Revaluation Reserves)(Note 3)	19,508,572	14,913,259	17,503,593
8	Securities Premium Account	14,512,781	14,165,941	14,165,941
9	Net Worth	38,520,939	33,660,455	36,159,558
10	Paid up Outstanding Debt	8,290,000	5,290,000	8,290,000
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio (No. of times)	0.22	0.16	0.23
13	Earnings Per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	2.81	2.02	9.16
	1. Basic:	2.81	2.02	9.16
	2. Diluted:	2.80	2.02	9.13
14	Capital Redemption Reserves	NA	NA	NA
15	Debt Redemption Reserves	356,468	356,468	356,468
16	Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	17.45	19.84	21.05
17	Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	17.45	19.84	21.05

Notes:
 Total Income from operations represents Gross Written Premium (GWP).
 The Indian Accounting Standards (IND AS) are currently not applicable to Insurance Companies in India.
 Includes Reserve on Amalgamation created on the merger of erstwhile HDFC ERGO Health Insurance Limited (formerly Apollo Munich Health Insurance Company Limited) with the Company.
 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015. The full format of quarterly and year to date Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company (www.hdfcergo.com).
 For the other line items referred in Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to Stock Exchange (BSE) and can be accessed on www.bseindia.com.

Place: Mumbai For and on the behalf of Board of Directors
 Sd/-
 Date: July 25, 2023
Ritesh Kumar
 Managing Director & CEO
 DIN: 02213019

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Bank Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license.

HINDUSTAN ZINC LIMITED
 Regd Office : Yashad Bhawan, UDAPUR-313 004 (Raj.)
 Email: hzsecretarial@vedanta.co.in in website: www.hzindia.com
 Tel: +91 2946604000-02, Fax: +91 294 2427734
 CIN: L27204RJ1986PLC001208

PUBLIC NOTICE TO THE MEMBERS – 57th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **forty-seventh(57th) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, August 24, 2023 at 12:00 Noon (IST)** to transact the business set out in the Notice calling the AGM which would be circulated in due course of time.

Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other Circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other Circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), companies are permitted to convene the AGM through VC or OAVM without physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2023. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

In accordance with the said MCA and SEBI Circulars, the Company will send the Notice along with the Integrated Report and Annual Accounts of the Company for FY 2022-23 ("Integrated Annual Report") through email to all its Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants ("DPs"). No physical copies of the Notice and the Integrated Annual Report will be sent to the Members unless specifically requested.

The Notice of the 57th AGM along with the Integrated Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 will be available on the Company's website at www.hzindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, respectively, and also on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Members whose email ID is not registered and who wish to receive the Notice, Integrated Annual Report and all other communications by the Company, from time to time, may get their email IDs registered by submitting Form ISR-1 to KFin Technologies Limited (Formerly known as KFin Technologies Private Limited) ("KFin"), the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, at inward_ris@kfinetech.com or to the Company at hzsecretarial@vedanta.co.in. However, for the shares held in demat mode, Members are requested to write to their respective DPs.

All the Members holding shares in physical mode are mandatorily required to furnish/update their Email ID, Mobile No., PAN and other KYC details through Form ISR-1, to furnish the Nomination through Form SH-13 or to opt out from giving the Nomination through Form ISR-3 and to change the Nomination through Form SH-14 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. The forms are also available on the website of the Company at <https://www.hzindia.com/home/>. This will avoid freezing of the folios on or after October 01, 2023. SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-RTABM/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in demat mode only.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the company and in compliance with the MCA and SEBI Circulars as amended from time to time.

Place: Udaipur
 Date: July 25, 2023

For **Hindustan Zinc Limited**
 Rajendra Pandwal
 Company Secretary and Compliance officer
 Membership No.: ACS 9377

INTERNATIONAL COMBUSTION (INDIA) LIMITED
 CIN: L36912WB1936PLC008588
 Registered Office: Infinity Benchmark, 11th Floor, Plot No. G-1, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata 700 091
 Phone: +91(33) 4080 3000
 e-mail: info@internationalcombustion.in; Website : www.internationalcombustion.in

Extract of Unaudited Financial Results (Standalone) for the First Quarter ended 30th June, 2023
 (Rs. in lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone		
		Quarter Ended		Financial Year Ended
		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total Income from Operations	6912.00	4298.47	22353.91
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extra-ordinary Items)	939.26	33.22	1209.54
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extra-ordinary Items)	939.26	33.22	1209.54
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extra-ordinary Items)	571.88	25.53	830.91
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	563.07	37.20	795.66
6.	Equity Share Capital	239.03	239.03	239.03
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year			9,905.32
8.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic	23.93	1.07	34.76
	2. Diluted	23.93	1.07	34.76

Note :
 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Quarterly Financial Results (Standalone) of the Company for the first quarter ended 30th June, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange, BSE Ltd. at <https://www.bseindia.com> and of the Company at <https://www.internationalcombustion.in>.

For & on behalf of the Board of Directors of **International Combustion (India) Limited**
 Indrajit Sen
 Managing Director (DIN-00216190)

Place : Kolkata
 Dated : 25th July, 2023

Visit us at : www.internationalcombustion.in

ACKNOWLEDGED LEADERSHIP IN TECHNOLOGY

AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED

Registered Office: C-1, Phase – II, Focal Point, Rajpura Town – 140 401, Punjab
 Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector –49, Sohna Road, Gurgaon – 122 018, Haryana
 E-mail: info@ambergrouppindia.com; Website: www.ambergrouppindia.com
 Tel: +91 124 3923000; Fax: +91 124 3923016, 17, CIN: L28910PB1990PLC010265

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June, 2023
 (Rs. in lakh except for per share data)

Consolidated				Sl. No.	Particulars	Standalone			
3 months ended (30 June 2023)	3 months ended (31 March 2023)	3 months ended (30 June 2022)	Year ended (31 March 2023)			3 months ended (30 June 2023)	3 months ended (31 March 2023)	3 months ended (30 June 2022)	Year ended (31 March 2023)
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1,70,198.67	3,00,261.85	1,82,572.60	6,92,709.51	1.	Total Income from Operations	1,19,766.89	2,35,091.73	1,43,169.62	5,02,272.58
6,268.83	14,589.90	5,886.36	21,965.37	2.	Net Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	3,037.97	8,721.49	1,880.55	6,631.19
6,268.83	14,589.90	5,886.36	21,965.37	3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,037.97	8,721.49	1,880.55	6,631.19
4,660.86	10,809.72	4,289.28	16,377.56	4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,258.45	6,491.70	1,313.82	4,891.95
4,667.71	10,692.18	4,335.38	15,992.33	5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,233.17	6,268.02	1,343.95	4,378.67
3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37	6.	Equity Share Capital (Face Value Rs.10 Each)	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37
-	-	-	1,87,508.00	7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	1,62,122.25
				8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
13.55	30.86	12.48	46.66		Basic earnings per share (in rupees)	6.70	19.27	3.90	14.52
13.55	30.86	12.48	46.66		Diluted earnings per share (in rupees)	6.70	19.27	3.90	14.52

Notes to above extract:
 a) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30 June, 2023 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended time to time). The full format of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June, 2023 is available on the Company's website (www.ambergrouppindia.com) and on the website of the stock exchanges where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
 b) Figures of the previous periods have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever necessary to comply with financial reporting requirements.

Place: Gurugram
 Date: 25 July 2023

For **Amber Enterprises India Limited**
 Sd/-
(Jasbir Singh)
 Executive Chairman & CEO and Whole Time Director

आज खुलेगा 'श्री टेकटेक्स लिमिटेड' का आईपीओ

निवेशक 28 जुलाई 2023 तक कर सकेंगे कंपनी के आईपीओ में आवेदन

Shri Techtex Limited

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर। गुजरात के अहमदाबाद आधारित 'श्री टेकटेक्स लिमिटेड' द्वारा फैक्ट्री शेड के कंस्ट्रक्शन के लिए वांछित पंजी जुटाने, सोलर प्लांट स्थापित करने, मशीनों की खरीद करने, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति व अन्य खर्चों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्जेंट प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज खुलकर 28 जुलाई, 2023 को बंद होगा

यह करती है कंपनी: वर्ष 2011 में कंपनी का निगमन हुआ था। कंपनी टेक्निकल टैक्सटाइल बिज़नेस सेगमेंट में निर्माण व बिक्री करने का काम करती है। श्री टेकटेक्स लिमिटेड विभिन्न आकारों और घनत्वों में पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) नॉन-वुवन फैब्रिक का निर्माण करती है, जिसका उपयोग परिस्थितिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों और उद्योगों में जहां डिस्पोजेबल या एकल-उपयोग उत्पाद आवश्यक होते हैं, जैसे कि जैविक खेती, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग होम, होम फर्निशिंग, वाहन सीट निर्माण, गार्ड

और फर्नीचर कवरिंग, पारिस्थितिक पैकेजिंग, औद्योगिक और उपभोक्ता सामान। श्री टेकटेक्स का निर्माण स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के डोलका तालुका के रिमाज में स्थित है, जिसकी प्रति वर्ष 3600 मीट्रिक टन पीपी नॉन-वुवन फैब्रिक की निर्माण क्षमता है। निर्माण सुविधा 41548 वर्ग मीटर में फैली हुई है।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन: वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने 16.25 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 4.47 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 40.21 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 12.65 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 51.82 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 8.26 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 के 30 नवंबर, 2022 तक की अवधि तक 36.26 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 6.07 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2023 के 30 नवंबर 2022 तक की अवधि तक कंपनी की कुल असेट करीब 60.30 करोड़ रुपए, नेटवर्थ



26.86 करोड़ रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस 24.83 करोड़ रुपए दर्ज किया है। कंपनी पर करीब 29.34 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। जैसे-जैसे कंपनी का कर्ज कम होता जाएगा वैसे-वैसे कंपनी की बॉटमलाइन मजबूत होती जाएगी। सोलर प्लांट लगाने से कंपनी की बिजली लागत भी कम होगी। वित्त वर्ष 2030 की ईपीएस के अनुसार कंपनी का आईपीओ करीब 11 के पीई मल्टीपल पर आ रहा है। नियमित ग्राहकों के देखते हुए कंपनी के आईपीओ का वैल्यूएशन वाजिब लग रहा है।

कंपनी के आईपीओ के संबंध में जानकारी: कंपनी का आईपीओ एनएसई इमर्जेंट प्लेटफॉर्म पर आज खुलकर 28 जुलाई 2023 को बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक बिल्ड इश्यू प्रणाली से 10 रुपए फेसवैल्यू के 7400000 शेयर 54 से 61 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी कर

45.14 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 2000 शेयरों का है। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी बीलाईन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

नोट: कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को पंजीकृत निवेश सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए।

राजस्थान सरकार वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर		दिनांक 19/7/23
बोली क्रमंक : ५०७ / (अ) / केवटकेर / लेख - बी / अंक / २०२३-२४ ९५		
संशोधित खुली प्रतियोगी बोली सूचना		
कर भवन, मुख्यकाय, अमेडेडकर सर्विस, वाणिज्यिक कर विभाग के जयपुर स्थित कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण परिसर में सजाई कार्य का एक वर्षीय अनुबन्ध करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली (एक स्तरीय बोली (दो भाग)) अलग-अलग लिफ्टमें में open competitive bidding के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।		
बोली का विवरण निम्नानुसार है:-		
कार्य	कर भवन, मुख्यकाय, अमेडेडकर सर्विस, वाणिज्यिक कर विभाग के पुनः व नवो भवन सम्पूर्ण परिसर की सजाई करवाना	
बोली शुल्क	₹.500/-	
अर.अई. सी. एन. प्रोसेसिंग शुल्क	₹. 1000/- रुपये एक हजार मात्र Demand Draft in favour of "Managing Director RISL" payable at "Jaipur"	
अनुमति लागत	18,00,000/- रुपये अठारह लाख मात्र प्रतियोगी	
बोली प्रतियोगी	36,000/- रुपये छत्तीस हजार मात्र	
बोली प्रारंभ करने की तिथि	बोली प्रारंभ की तिथि है	
बोली प्रारंभ करने की तिथि व समय	27.07.2023 upto 03.00 PM	
बोली बंद करने की तिथि व समय	27.07.2023 at 4:00 PM	
बोली प्रारंभ करने के लिए वेबसाइट	http://rajtax.gov.in,	
	http://spp.rajasthan.gov.in	
	https://proc.rajasthan.gov.in	
बोली शुल्क बोली प्रतियोगी एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की तिथि व समय	27-07-2023 at 01.00 PM	
Note :		
1. Bidder (authorized signatory) shall submit their offer both for technical and Financial proposal. However, DD for Bid Fees and Bid Security should be submitted physically at the office of Tendering Authority as prescribed in NIS and scanned copy of same should also be uploaded along with the technical Bid/cover.		
2. 'In case, any of the bidders fails to physically submit the Banker's Cheque / Demand Draft for Bid Fee, Bid Security its Bid shall not be accepted.		
3. CTD will not be responsible for any delay in bid due to any reason.		
(लेखक हस्ताक्षर) अधीक्षक अधिकारी (प्रशासन) मुख्यकाय वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर		
D.I.P.R./C/10716/2023		

इनानी मार्बल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आराजी नंबर 1312, उदयपुर-श्रीलवाड़ा राजमार्ग,

माताजी की पंडोली के पास, धिरोतड़-312001 (राजस्थान)

ईमेल आईडी: inanimarble@gmail.com वेबसाइट: www.inanimarbles.com

सीआईएन: L14101RJ1994PLC008930

सूचना

कंपनी के इन्वित्ती शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईडीपीएफ) में स्थानांतरित करना

कंपनी के शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और प्रशासकीय) नियम, 2016 ('नियम') के साथ संशोधित, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इन्वित्ती शेयरों पर घोषित लाभांश, जिस पर सात वर्षों की अवधि से दाय व किया गया हो, निवेशकों के लिए शिक्षा और संरक्षण कोष (आईडीपीएफ) जमा किया जाएगा। संशोधित शेयर वित्त पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, या दाय नहीं किया गया है, उन्हें भी कंपनी द्वारा आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने संशोधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है और आईडीपीएफ में स्थानांतरित होने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट www.inanimarbles.com पर भी उपलब्ध कराया गया है, इसलिए, कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईडीपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 और/या उसके बाद 28.10.2023 से पहले घोषित लाभांश का दाय करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले संशोधित शेयरधारक और जिनके शेयर आईडीपीएफ में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, ध्यान दें कि कंपनी आईडीपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल प्रमाणपत्र के बदले में ड्युप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और कंपनी ड्युप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईडीपीएफ के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

इसके अलावा, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं और आईडीपीएफ को हस्तांतरित किया गया है, स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और गैर-परकाम्य माना जाएगा। डीमैटरीयलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले संशोधित शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी आईडीपीएफ के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

यदि कंपनी को 28.10.2023 को या उससे पहले संशोधित शेयरधारकों से कोई संशोधित प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए परिणामी शेयर और लाभांश आईडीपीएफ के खाते में स्थानांतरित कर देगी।

कृपया ध्यान दें कि अत्यांत लाभांश और आईडीपीएफ में हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के लिफ्टकार्ड कोई दाय नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर और अवैतनिक लाभांश आईडीपीएफ को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, वह नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ('आईडीपीएफ प्राधिकरण') से शेयरों और लाभांश का दाय कर सकता है।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) - मेसर्स अकिंत कॉन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, 60, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, परदेशीपुरा के पास, इंदौर (एमपी) -452010 फोन: 0731-4065799/97, ई-मेल: investor@ankitonline.com से संपर्क करें।

इनानी मार्बल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

कृते/-

मधु बाला हर्मा

कंपनी सचिव

स्थान: धिरोतड़

दिनांक: 24.07.2023

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.
(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस 36,ए-10, सेंट्रल स्पाइन, अलंकार प्लाजा,

विद्याधर नगर, जयपुर-302023

CIN: L27109RJ2009PLC030511 फोन नं. 0141-2235760/761,

ई-मेल: rammingmass@gmail.com, वेबसाइट: www.rammingmass.com

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणाम का विवरण

(प्रति शेयर आंकड़े को छोड़कर रुपए लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समेकित			
		समाप्त तिमाही			
		30.06.2023 (अन-अंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	30.06.2022 (अन-अंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)
1.	कुल परिचालन आय (शुद्ध)	3011.88	3447.97	3344.80	13782.70
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर,असाधारण और या असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	767.14	950.32	709.85	3358.02
3.	अवधि के लिए कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	767.14	950.32	709.85	3358.02
4.	अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	573.93	711.88	532.83	2521.79
5.	अवधि के लिए कुल आय	573.93	715.22	532.83	2525.13
6.	समता अंश पूंजी (₹.10/-प्रति का अंकित मूल्य)	1147.63	1147.63	1087.63	1147.63
7.	रिजर्व(पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बेलेंस शीट के अनुसार	-	-	-	12174.02
8.	आय प्रति शेयर (₹.10/-प्रति का अंकित मूल्य)				
	मूल एवं तरल	5.00	6.20	4.64	21.97
स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या					
9.	परिचालनों से आय	3031.64	3473.75	3346.38	13962.04
10.	कर पूर्व लाभ	794.53	970.59	782.81	3466.95
11.	कर पश्चात लाभ	595.11	723.89	582.00	2583.77
12.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय	595.11	725.23	582.00	2585.11

टिप्पणी:

क) परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 24 जुलाई, 2023 को आयोजित उनकी संशोधित बैठक में अनुमोदित किया गया है।

ख) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर एकल और समेकित त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप www.bseindia.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं कंपनी की वेबसाइट www.rammingmass.com पर भी उपलब्ध है।

ग) # - असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं को इंड-एएस नियमों/एएस नियमों, जो भी लागू हो, के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

घ) पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, उन्हें पुनः प्रस्तुत/पुनः समूहित किया गया है।

दिनांक: 24 जुलाई, 2023

निदेशक मंडल के आदेश से

राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के लिए

कृते/-

राजेश काबरा

(प्रबंध निदेशक)

DIN: 00935200

सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड को जनवरी 2022 में किए गए अपने प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट के लिए प्रतिबद्ध पूंजी के मुकाबले कुल धनराशि प्राप्त हुई

कंपनी को फ्लोरिन्ट्री वेंचर्स एलएलपी से 50 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त प्राप्त हुई

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली। भारत में अग्रणी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में से एक सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड (एससीएनएल) ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि

फ्लोरिन्ट्री वेंचर्स एलएलपी (गैर-प्रमोटर समूह से संबंधित इकाई) से परिवर्तनीय वारंट के अनुसार 100 करोड़ रुपए का संपूर्ण आवंटन प्राप्त कर लिया है। कंपनी को 21 जुलाई 2023 को फ्लोरिन्ट्री वेंचर्स एलएलपी (गैर-प्रमोटर समूह से संबंधित इकाई) से 82,05,128 पूर्ण परिवर्तनीय वारंट के रूपांतरण के लिए 50 करोड़ रु. की अंतिम किश्त प्राप्त हुई। यह निवेश एससीएनएल को

अपने इच्छित विकास, अपने ग्राहकों के विस्तार और 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपने परिचालन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाने की पहल में मदद करेगा। फ्लोरिन्ट्री ने जनवरी 2022 में तरजीही आवंटन के माध्यम से 1,23,07,692 पूर्ण परिवर्तनीय वारंट के रूप में 100 करोड़ रु. का वादा किया था। पूर्ण परिवर्तनीय वारंट जारी करने के समय, फ्लोरिन्ट्री ने 25 करोड़ रुपए और जनवरी 2023 में 25 करोड़ रुपए की एक और किश्त अदा की गई। तीसरी और अंतिम किश्त के बाद, फ्लोरिन्ट्री द्वारा कुल निवेश 100



करोड़ रुपए हो गया है। फ्लोरिन्ट्री वेंचर्स एलएलपी, एक विकास-चरण वाली निजी इक्विटी फर्म है जो प्रौद्योगिकी-समर्थित फर्मों में निवेश करती है, जिसका नेतृत्व ब्लैकस्टोन इंडिया के पूर्व प्रमुख, मैथ्यू सिरीएक द्वारा किया जा रहा है। इस किश्त के साथ, एससीएनएल ने 225 करोड़ रुपये का अपना प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट पूरा कर लिया है जो जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। निवेश पर टिप्पणी करते हुए, सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एचपी सिंह ने कहा, 'निवेश के सफल समापन पर, हमें एक प्रमुख निवेशक, फ्लोरिन्ट्री वेंचर एलएलपी का समर्थन पाकर खुशी हुई है, जिनके समर्थन ने हमारी समावेशी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने और हमारी कंपनी में विश्वास बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। यह निवेश लंबी अवधि में लाभदायक वृद्धि प्रदान करने की हमारी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।'

अपोलो पाइप्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए, राजस्व एवं लाभ में दर्ज हुई बढ़त

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली। नई दिल्ली आधारित स्टील पाइप निर्माण गतिविधियों में संलग्न कंपनी अपोलो पाइप्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 की 30 जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की 30 जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही के दौरान गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 219.71 करोड़ रुपए के कुल राजस्व के मुकाबले 261.51 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया है। उक्त अवधि में कंपनी ने गत वित्त वर्ष में अर्जित 8.82 करोड़ रुपए के कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 13.92 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2024 की 30 जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 2.24 रुपए के मुकाबले 3.54 रुपए का ईपीएस अर्जित किया है। कंपनी सिंचाई (कृषि और एचडीपीई पाइप) और घरेलू और स्वच्छता अनुप्रयोगों (कॉलम, एसडब्ल्यूआर और केरिंग पाइप) के लिए, जल आपूर्ति में (सीपीवीसी, यूपीवीसी, और पीपीआर-सी) जैसे उत्पादों के माध्यम से रोजमर्रा की पाइपलाइन जरूरतों के लिए समाधान मुहैया करवाती है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड 3, जयपुर		दिनांक 20.07.2023
कलक 1 - 2875	ई-निविदा सूचना संख्या 22 / 2023-24	
रक्तबन्ध के सम्बन्ध में सूचना दी और से विनिर्देशित कार्य के लिए विवरण प्रदान करने के लिए। अंतिम 10 दिनों 1.07.2023 से सम्पूर्ण समय तक पर पंजीन निम्न सूचना दी कि किन्नर द्वारा जारी अंतिम संशोधित विवरण के अनुसार 28 दिनों में अनुभव श्रेणी में पंजीन के अंतर्गत से मेडिकल निदेशक अंतिम करी जाते हैं। निदेश से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.drrajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं।		
निविदा अवेदन इच्छा रखने की तिथि	24.07.2023 (लेखक) प्रातः 9.30 बजे से 02.08.2023 (बुधवार) तक रात 6.00 बजे तक	
निविदा जमा करने की तिथि	24.07.2023 (लेखक) प्रातः 9.30 बजे से 02.08.2023 (बुधवार) तक रात 6.00 बजे तक	
निविदा खलने की तिथि	03.08.2023 (बुधवार) को अग्रतः 03.00 बजे तक	
UEN No.		
1	PW102324WS0808694	
2	PW102324WS0808695	
3	PW102324WS0808696	
(अंतिम कुम्भार गुप्त) अधीक्षक अभियन्ता संशोधित नगर खण्ड पूर्वीय जयपुर		
D.I.P.R./C/10821/2023		

प्रबंधन के आदेश से सूचना

बिजनेस रेमेडीज के सभी पूर्ण पर प्रकाशित नगर से प्रामाणिक होकर किसी भी प्रकार का मिथेस या अन्य किसी भी प्रकार का लिफ्ट नहीं लेते। अगर कोई ऐसा करता है तो इच्छित उम्मेद विनिर्देशी लिफ्ट लेने वाले के स्वयं की होनी। किसी भी प्रकार के बुकेशन के लिए बिजनेस रेमेडीज विनिर्देश नहीं होगा।

For Your Information...

Leading spices producing states, 2020-21 estimates (% share)



M.P.	30.87%
Rajasthan	11.77%
Gujarat	9.85%
Andhra	8.93%
Telangana	7.13%
Karnataka	6.34%
Maharashtra	4.03%
Assam	2.96%
Odisha	2.80%
U.P.	2.62%
T.N.	1.75%
Kerala	1.46%
Source	Spices Board
Compiled by Nafanuksan Research	

यहां करें भ्रष्टाचार की शिकायत

एसीबी टोल फ्री नंबर : 1064 वाट्सएप हेल्पलाइन नं. : 9413502834

विचार सागर

“इतने कड़वे भी न बोलें कि लोग आपका विरसकार करने लगे और इतने मीठे भी न बोलें कि लोग आपको चापलूस समझने लगे।” - पी.सी. वर्मा

“जब आप सब कुछ गंवा बैठें तो उससे प्राप्त शिक्षा को ना गवाएं।” - के.आर. कमलेश

Thoughts of the time

For so it is the will of God, that with doing good ye may put to silence the ignorance of foolish men. - 1 Peter 2:15

Victory is sweetest only when you have known the Defeat - Sresh Rathi

राजस्थानी कहावत

गागर मांय सागर गागर में सागर

गागर के समान निहायत छोटी बात में सागर-सा विशाल भाव देने पर।

छोटी-सी उक्ति में बड़े मर्म का महत्व दर्शाने के लिए इस कहावत का काव्यात्मक प्रयोग होता है।

-व्य. विजय दान देवा साधार : रूपयान संस्थान, बोरोवडा

कागज उद्योग ने पानी का इस्तेमाल 80 प्रतिशत कम किया : आईपीएमए

नयी दिल्ली/एजेंसी। देश में कागज उद्योग ने पानी की खपत में 80% की कटौती की है और वह इसमें और कमी लाने पर विचार कर रहा है। इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) ने यह जानकारी दी। आईपीएमए ने कहा कि उद्योग ने पिछले कुछ साल में टिकाऊ या सतत उत्पादन प्रक्रियाओं में 25,000 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। आईपीएमए ने कहा कि कई उद्योगों के कारोबारियों ने कार्बन और जल उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल उपाय किए हैं। कंपनियों ने पानी और ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान को तैनात करने के अलावा खुद के लिए बिजली का उत्पादन किया है। आईपीएमए के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा, “एकीकृत पेपर मिलों ने एक टन कागज का उत्पादन करने के लिए पानी के उपयोग को पहले के 200 घनमीटर से घटाकर 40 घनमीटर कर दिया है। इसे और कम करने के लिए एक टोस प्रयास किया जा रहा है।” अग्रवाल ने कहा, “भारतीय कागज उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया और क्षमता में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।” अग्रवाल ने कहा कि कागज उद्योग ने बिजली की खपत कम कर दी है और एकीकृत संयंत्र पल्पिंग प्रक्रिया से बायोमास का उपयोग करके 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।

मेडिकल हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है टेक्सटाइल सिटी

भीलवाड़ा/निजी संवाददाता

टेक्सटाइल सिटी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा विगत वर्षों में ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में मेवाड़ अंचल के सबसे बड़े मेडिकल हब के रूप में विकसित होने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसके साथ ही यहां बढ़ती मेडिकल सुविधाओं के कारण शहर जल्द ही मेडिकल ट्रिज्म के रूप में अपनी पहचान बना लेगा।

भीलवाड़ा शहर में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अतिरिक्त हड्डियों से जुड़ी अन्य समस्याओं के उपचार को लेकर कम लागत पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में यहां राजस्थान के विभिन्न शहरों एवं गांवों से बड़ी संख्या में रोगी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शहर में अनेक ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों ने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल खोले हैं। एक समय ऐसा भी था जब हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के रोगियों को उपचार के लिए अहमदाबाद और जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति

कम खर्च में मिल रही इलाज की बेहतर सुविधाएं



इसके बिल्कुल उलट हो चुकी है। आज हालात यह हैं कि यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में राजस्थान के अनेक शहरों-गांवों और मध्यप्रदेश से रोगियों की आवक बनी हुई है। ऐसे में यहां के सभी ऑर्थोपेडिक चिकित्सालयों में बाहरी रोगियों का दबाव बना रहता है। इसके साथ ही जरनल मेडिशन के क्षेत्र में भी यहां कई बड़े चिकित्सालय कार्यरत हैं और कई बड़े अस्पतालों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित चिकित्सालयों में भी विस्तार की योजना पर कार्य चल रहा है। यहां मेवाड़ टेक्सटाइल के विशाल कैंपस में सात मंजिला चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है। इस चिकित्सालयों के निदेशकों का कहना है कि महानगरों की तर्ज पर भीलवाड़ा में सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। यहां मौजूद बड़े चिकित्सालयों में मिल रहे बेहतर और सस्ते इलाज के कारण रोगियों का विश्वास तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भीलवाड़ा तथा आसपास के जिलों से इलाज के लिए अहमदाबाद जाने वाले रोगियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इसके साथ ही दंत चिकित्सा और आंखों से जुड़े रोगियों के उपचार के लिए कई चिकित्सालयों ने अपना कार्य शुरू किया है।

राजस्थान स्टेट गैस ने लागू की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की नीति

जयपुर/कार्यालय संवाददाता

राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने अपने कार्यालय परिसरों, अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों के सीएनजी स्टेशनों और शहरी गैस वितरण परियोजना क्षेत्र के साथ ही व्यवसाय कार्यान्वयन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण नीति का क्रियान्वयन शुरू किया है। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल अपने कार्मिकों, स्टेक होल्डर्स व कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एचएसई नीति के अनुसार सेवा क्षेत्र में हानि के स्तर को भी न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि संस्थान सामाजिक सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के उच्च मापदंडों की पालना के लिए संकल्पित है। आरएसजीएल द्वारा जयपुर, कोटा, नीमराणा, कूकस, ग्वालियर और श्योपुर में व्यावसायिक

गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। दो मद्र स्टेशन सहित 11 सीएनजी स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं।

सिंह ने बताया कि आरएसजीएल के सभी कार्मिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही नीति क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही ऑडिट की व्यवस्था भी होगी।

डीजीएम मार्केटिंग विवेक रंजन और डीजीएम सीएनपी विवेक श्री वास्तव ने बताया कि आरएसजीएल की एचएसई नीति के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संस्थान के सभी स्तर के कार्मिकों को सौंपी गई है। इसके साथ ही नीति में आवश्यकतानुसार सुधार व समयानुकूल बदलाव की व्यवस्था की गई है। सीएफओ दीपेशु पारीक व मैनेजर आईटी गगनदीप राजोरिया ने बताया कि आरएसजीएल की एचएसई नीति के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर सीएस रवि अग्रवाल व प्रभारी पीआर राजेन्द्र शर्मा ने भी हिस्सा लिया।

नेशनल • इंटरनेशनल

सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक सात लाख लोगों ने कराया पंजीकरण

नयी दिल्ली/एजेंसी। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अबतक सात लाख निवेशकों ने इस बारे में शुरू किए गए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अबतक कुल 150 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इस पोर्टल को कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च में कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटा दिया जाएगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि अबतक सहारा के सात लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसके तहत कुल 150 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है।

तेलंगाना के निर्यातकों ने कहा, अमेरिका में चावल का पर्याप्त भंडार

हैदराबाद/एजेंसी तक चलेगा। निर्यातकों ने एक ईमेल में एपीडा से अनुरोध किया, “निष्कर्ष के तौर पर, हम अपयश चावल वर्गीकरण के मुद्दे को हल करने और चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने में आपका समर्थन चाहते हैं। हम न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ छोटी पैकिंग में पसंदीदा किस्मों के निर्यात की अनुमति दे सकते हैं। हम एक अधिक सटीक वर्गीकरण प्रणाली लागू कर सकते हैं। इस तरह हम भारतीय चावल की किस्मों की समृद्ध विविधता का लाभ उठा सकते हैं और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।”

पोला ने कहा कि अभी तक अमेरिका में लगभग 12,000 टन चावल का स्टॉक उपलब्ध है और प्रतिबंध की घोषणा से पहले ही 18,000 टन चावल का निर्यात किया जा चुका है। यह पूरी तरह से अगले छह महीने तक चलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उचित निर्णय लेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, 9.07 किलोग्राम चावल के बैग की कीमत जो पहले 16-18 डॉलर बताई गई थी, अब दोगुनी हो गई है और कुछ जगहों पर कीमत 50 डॉलर के उच्चस्तर तक पहुंच गई है।

आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत से हर महीने औसत 6,000 टन गैर-बासमती चावल अमेरिका को निर्यात किया जाता है। जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हिस्सा 4,000 टन का होता है।

‘एमएसएमई को विलंबित भुगतान के मामलों के निपटान को राज्य अधिक संख्या में स्थापित करें MSEFC’

नयी दिल्ली/एजेंसी। केंद्र सरकार ने विलंबित भुगतानों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक संख्या में सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना का अनुरोध किया है। सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम (एमएसएमई) राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने शिकायतों को दर्ज करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदारों के बकाया भुगतान की निगरानी करने के लिए एक समाधान पोर्टल को 2017 में शुरूआत की थी। समाधान पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल, 2020 से 17 जुलाई,

2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया भुगतान 15,681.58 करोड़ रुपये था। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में बकाया भुगतान 5,134.19 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष-22 और वित्त वर्ष-21 में, कुल लंबित बकाया क्रमशः 4,628.90 करोड़ रुपये और 4,092.97 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्यों से अधिक संख्या में एमएसईएफसी की स्थापना करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी के साथ 152 एमएसईएफसी स्थापित किए जा चुके हैं।

राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन

जयपुर/का.सं। राज्य सरकार ने तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके गठन का आदेश जारी कर दिया है। यह बोर्ड तेली समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए नवीन योजनाएं बनाकर तथा समस्याओं की पहचान कर राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। बोर्ड तेली घाणी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करने तथा विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग सहित अन्य कार्य करेगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों सहित कुल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम एवं रोजगार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के विभागीय अधिकारी), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी, राजस्थान स्वर्ण कला विकास बोर्ड सचिव इस बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। वहीं राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा।



बीकाजी के एमडी का सम्मान

बीकानेर/नि.सं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी दीपक अग्रवाल का सूरतगढ़ रोड स्थित होटल केएलएम में सौरभ मीडिया की ओर से आयोजित समारोह में स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर एडगुरु राजकुमार जैन, परविन्द पिंटा मित्तल, सौरभ जैन, डॉ. एनके गुप्ता आदि ने दीपक अग्रवाल को हस्तनिर्मित माटी कला का विशेष स्मृति चिह्न एवं हनुमान चालीसा भेंट की। दीपक अग्रवाल ने कहा कि गंगानगर की मिली-जुली संस्कृति बेहद आकर्षक है।



राजीविका स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग-ब्रांडिंग के लिए एमओयू

जयपुर/का.सं। राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग अब कई एनजीओ के माध्यम से भी की जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में इस संबंध में चार एनजीओ के साथ एक गैर वित्तीय अनुबंध किया गया है। अनुबंध के अनुसार अब रणवर्क बालाजी ट्रेड, इन्डवा, जन शिक्षा एवं विकास संघ और मंजूरी फाउंडेशन राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग करेंगे। इस अवसर पर जलप्रहण एवं भू संरक्षण विभाग के निदेशक रश्मि गुप्ता एवं परियोजना निदेशक प्रशासन हरदीप सिंह भी उपस्थित रहे।

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L1715R31960PLCC008216
पंजीकृत कार्यालय: खारीगाम, पोस्ट गुलाबपुरा-311021
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@injbhilwara.com; वेबसाइट: www.rswm.in

अंशधारकों हेतु सूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 के संबंध में अदत्त लामांश एवं ऐसे अंतर्निहित अंश जिनपर वित्तीय वर्ष 2015-16 से लगातार 7 (सात) वर्षों से लामांश अदत्त/गैरदावाकृत है को आईपीएफ (विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि) में हस्तांतरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 (आईपीएफ नियम 2016) और समय-समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचना दी जाती है। आईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों से लामांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रेषित किया जाएगा। निधियों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में मत् 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2015-16 से लामांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को आईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है। कम्पनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लामांश का दावा मत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लामांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्वीड-पोर्ट के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कम्पनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/वलाइड आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर भी निवेशक अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया है। तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उचित दृष्टि से लामांश का दावा नियत तिथि से पूर्व करें। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु गैरदावाकृत लामांश 2 नवम्बर, 2023 को हस्तांतरण हेतु दे हो जाएगा। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियम, 2016 का पालन करने की दृष्टि से कम्पनी ऐसे अंशों को आईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी। आईपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हस्तांतरण की नियत तारीख से पूर्व अपने लामांश का दावा करें। सम्बद्ध अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र भेजकर गैरदावाकृत लामांश पर अपना दावा प्रस्तुत करें:

1. मूल रद्द किए गए चेक की प्रति जिसपर बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड एवं अंशधारक का नाम मुद्रित हो।
 2. पैर की रब-सत्यापित प्रतिलिपि।
 3. पता प्रमाण के तौर पर आधार/पासपोर्ट/उपयोगिता बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं) की रब-सत्यापित प्रतिलिपि।
- आईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैरदावाकृत लामांश एवं समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लामांश सहित, यदि हो, आईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं: एमसीएस शोयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड) फोन-66, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर: 011-41406149-52, फैक्स नंबर: 011-41709881 ईमेल आईडी: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
- KYC, पैर, नामांकन और बैंक खाता एवं अन्य विवरण के अद्यतन करने हेतु अनुरोध:
- हम सभी अंशधारकों से आगे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी कैवाईसी एवं पैर, ईमेल आईडी, वर्तमान पता, बैंक खाता विवरण, नामांकन विवरण सहित 'ऑफ-आउट' का विवरण यदि कोई हो तो अद्यतन करें:
- क) अपने संबंधित डिजिटल प्रतिभागियों के साथ, यदि अंश उनके द्वारा डीमैट मोड में प्रतिरक्षित है या
- ख) कम्पनी के आरटीए के साथ, फॉर्म ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (जिसा लागू हो) जमा करके, यदि अंश भौतिक मोड में प्रतिरक्षित है, यदि उन्होंने उक्त विवरण/जानकारी अद्यतन नहीं किया है। उक्त प्रपत्र वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर निवेशक अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध है।
- कृते आर एस डब्लू एम लिमिटेड
हस्ता/ -
सुरेन्द्र गुप्ता
दिनांक : 25 जुलाई, 2023
पता : नोएडा (उ.प्र.)
ई-कम्पनी सचिव
एफसीएस: 2615